



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 18.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“परिवार परामर्श केन्द्र”

कमेटी ने 02 परिवारों को बिखरने से बचाया..

आज दिनांक 18.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन अवस्थित सभागार कक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 06 मामलों को सुना गया। जिसमें परिवार परामर्श के सदस्यों के सूझबूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुये 02 परिवारों का आपसी समझौता कराकर खुशी-खुशी वापस घर भेजा गया एवं अन्य मामलो में अगली तारीख दी गई है।

इस दौरान **SHO** महिला थाना श्री अनिल सिंह, प्रभारी एण्टी रोमियो/मिशन शक्ति टीम निरीक्षक रचना सिंह, म0कां0 साधना, म0कां0 लक्ष्मी, म0कां0 रेनू, समाजसेवी श्री मोहम्मद हनीफ, श्री शरद तिवारी, **GGIC** प्राचार्य श्रीमती सरगम खरे, समाजसेवी सुश्री नेहा चन्सौरिया, श्रीमती अंशु शिवहरे आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

निस्तारित किये गये मामलों का विवरण:-

1. श्रीमती पूजा पत्नी दीपक निवासी मोहल्ला दुबियाना, थाना कोतवाली महोबा।
2. श्रीमती राधा पत्नी जितेन्द्र नि0-सिकन्दरपुर राठ(हमीरपुर), ग्राम रिछारा (महोबकंठ)



